

Goodluck India Limited

Corp. Office : "GOODLUCK HOUSE" Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001 U.P. (INDIA) Ph.: +91-120-4196600, 4196700, Fax : 91-120-4196666, 4196777

Date: 10.09.2024

The Manager, DCS
The Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai

Ref: Scrip Code: - 530655

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: - GOODLUCK

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, and other applicable provisions, Please find enclosed herewith newspaper clippings of Notice of the 38th AGM (Annual General Meeting), E-Voting and Book Closure published in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper). (Publications enclosed herewith)

This is for your information and records.

Thanking you.

FOR GOODLUCK INDIA LIMITED

RAMESH CHANDRA GARG DIRECTOR

End: as above

Regd. Office: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 (INDIA)

CIN: L74899DL1986PLC050910 | Website: www.goodluckindia.com | Email: goodluck@goodluckindia.com

Works: A-42 & 45, Industrial Area, Sikandrabad - 203205 Distt. Bulandshahr, U.P. (INDIA)

FINANCIAL EXPRESS



कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक (अभि.), उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

ई-निविदा सूचना

(तदद्वारा सुचित किया जाता हैं, कि विभिन्न आँग्रोगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास/अनुरक्षण / उच्चीकरण कार्यों हेत सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकार्यों में कार्यरत फर्मों/ठेकेंदारों से ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसको अपलोड करने की समयसीमा निम्नवत है-. क्रम सं. । से 4 पर अंकित कार्यों की निविदा दिनांक 09.09.2024 को पूर्वोन्ह 11.00 बजे से दिनांक 17.09.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोख की जा सकती हैं, जिन्हें दिनांक 18.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोल

2. क्रम सं. 5 से 7 पर अंकित कार्यों की निविदा दिनांक 10.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 18.09.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, जिन्हें दिनांक 19.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोल जावेगा (अल्पकालिक) निविदादाताओं द्वारा केवल शपथपत्रों की मूल प्रतियाँ निविदा प्रपत्रों में उठिलखित दिनांक तक कार्यालय में

जमा की जा सकेंगी। ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का विवरण निम्नवत है:-

| क्रमांक | कार्य का नाम | कार्य की लागत रु. (लाख मैं) |
|---------|--|--------------------------------|
| 1 | Construction of R.C.C roads Drain of Existing RD no 10,11,18 and 19 AT I. A. Loha Mandi Distt Ghaziabad | 195.38 |
| 2 | Widening, Strengthening And Interlocking Tiles of Existing Road No. 8 (Rathi Road) To Plot No. 35/1 & From Plot No. E-32 to C-14(N.H9) at I.A. South Side G.T. Road Ghaziabad. | 318.89 |
| 3 | Widening & Strengthening of Existing Road From Plot No.C-3/5 (Rathi Road) To Plot No. G-1(Petrol Pump) and from Plot No. 27 to 29 & Sub Division Road of Plot No. 33 And R.C.C. Drain at I.A. South Side G.T. Road Ghaziabad | 375.91 |
| 4 | Widening, Strengthening And Construction of R.C.C. Drain of Sub Division Road of "A Block" at I.A. South Side G.T. Road Ghaziabad | 409.66 |
| 5 | Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No Construction Work of 2 Par Nala & RCC Road Ka Nirmaan Karya. | 263.58 |
| 6 | Bulandshahar Road I.A. Main Mukherji Park ke Back Side B 22/6 Se B 22/3 tak Nala & RCC Road ka Nirma Karya | 112.53 |
| 7 | Strengthening/ Widening Of Existing Road No.2 (Part) 24, 32 & 33 And Construction Of Drain At Road No. 9 & 34 At LA. Bulandshahar Road Distt: Ghaziabad | 294.69 |

नोट:- निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर सहित वरें अंकित करें। जी.एस.टी. अलग से देव होगा। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website: www.onlineupsidc.com पर रिथत ई-लिंक एवं युपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेत् कार्यालय के सहायक प्रबन्धक (सिविल) के मोबाइल नं. 9971857178 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रधान महाप्रबन्धक (अभि.

उ.प्र.रा.ऑ.वि. प्रा., कानपुर

GANPATI PLASTFAB LIMITED

Registered Office: 334, Shekhawat Mansingh Block, Nemi Sagar Colony, Queens Road, Jaipur-302016, Raj. Administrative Office: C-58(B), Road No.2-D, Industrial Area, Bindayaka Jaipur- 302012 Contact No.: 0141-2240573, 2240721, Email ID: secretarygpl64@gmail.com, Website: www.gpl.co.in

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

- . The 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday. September 30, 2024at 3:00 P.M. IST at Administrative Office of the Company situated at C-58 (B), Road No. 2-D, RIICO Industrial Area, Bindayaka, Jaipur-302012 (Raj.) to transact business as detailed in the Notice convening the Annual General Meeting in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013. In compliance of the circulars, electronic copies of Notice of AGM and the Annua
- Report for the financial year 2023-2024 have been sent to all the shareholders on Thursday, September 05, 2024 whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the shareholders has been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular. In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies
- (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Shareholders are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system (e-voting)provided by CDSL. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up share capital of the Company as on Monday, September 23, 2024. In this regards, the shareholders are hereby further informed that:
- a. The remote e-voting period shall commence on Friday September 27, 2024 (9:00
- A.M. IST) to Sunday, September 29, 2024 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting will be disabled thereafter.
- b. Shareholders may note that:
- i. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the same shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility for voting will also be made available during the AGM and those shareholders present in the AGM, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote during the AGM. iii. The shareholder who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their votes
- again; and iv. Only persons whose name is recorded in the register of shareholders or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off

date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

- any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024may obtain user id and password by following the procedures as mentioned in the Notice of AGM or by sending a request mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or secretarygpl84@gmail.com. However if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.
- . In case of queries with respect to attending AGM & e-Voting, shareholders may refe the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at the website or contact Mr. RakeshDalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25thFloor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400013 at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

The Notice, Annual Report 2023-2024 and other relevant details are available on the company's website www.gpl.co.in, website of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at

www.cse-india.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com. For Ganpati Plastfab Limited

(Company Secretary & Compliance Officer)

Vinita Kanwar Jaipur, September 07, 2024 M. No: A61018

GOODLUCK GOODLUCK INDIA LTD. Regd. Off.: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110 001

Corp. Off.: Good Luck House, II-F, 166-167, Nehru Nagar, Ambedkar Road, Ghaziabad-201001 CIN: L74899DL1986PLC050910; Tel: 91-120-4196600 e-mail: goodluck@goodluckindia.com; website: www.goodluckindia.com

Notice of 38th Annual General Meeting, Book Closure and

Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that 38th Annual General Meeting (`AGM') of the members of Goodluck India Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on Saturday, 28th September, 2024 at 11:00 AM, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with the General Circular by Ministry of Corporate Affairs 09/2023 dated September 25, 2023 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 and SEBI Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 06, 2023 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31 2024 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository The date of completion of sending email of the notices to the shareholders is September 05, 2024. These documents are also available on Company's website www.goodluckindia.com for download by the members.

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow elow instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2023-24 and

login details for e-voting. Physical Holding: Shareholders are requested to furnish their email ids, mobile no., bank

account details for the purpose of 38th AGM (Annual General Meeting) of the Company and/or other details in Form ISR-1 and other relevant forms prescribe by SEBI with the company's Registrar and Share Transfer Agent of the Company, MAS Services Limited T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 100020. Email Id: investor@masserv.com Website: www.masserv.com.

Relevant forms prescribed by the SEBI in this regard are available on the website of the RTA at www.masserv.com under download tab. You are requested to kindly note the same and update your particulars timely.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 22" September 2024 to Saturday, 28th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders for the purpose of Final Dividend and the 38th Annual

General Meeting. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Services

Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 24, 2024 (09:00 AM) and ends on Friday, September 27, 2024 (05:00 PM). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 21, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited a investor@masserv.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri N K Rastogi Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to the undersigned at cs@goodluckindia.com (Ph. 0120-4196600) or to RTA at investor@masserv.com (Ph. 011-26387281-83). For Goodluck India Limited

Sd/ (Abhishek Agrawal) (a) pnb Housing

REGD. OFFICE: 9TH FLOOR, ANTRIKSH BHAWAN, 22, K.G. MARG. NEW DELHI-110001, PH: 011-23357171, 23357172, 23705414. Website: www.prohousing.com mance Limited BRANCH ADDRESS: C2/21, First Floor, C-Block, Mata Chanan Devi Road, Janakpuri, New Delhi - 110058

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/les described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 or he said Rules on the dates mentioned against each account.

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/les and any dealing with the property/les will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (β) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| i. Vo. | Loan Account No. | Name of the Borrower/Co- Borrower/Guarantor | Demand Notice Date | Amount Outstanding | Date of Possession Taken | Description Of The Property Mortgaged |
|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| | 00316660000222 B.O: Janakpuri | | 14-01-2020 | Rs. 8,52,723.04 (Rupees Eight Lakh Fifty Two Thousand Seven Hundred Twenty Three And Four Palsa Only) | (Physical) | All The Part And Parcel Of Unit No- E4/104, Vardhman Gardenia, Sonipat, Haryana-131001. |
| PL | ACE:- JANAKP | URI, DATE:- 06.09. | 2024 | AUTHORIZED | OFFICER, P | NB HOUSING FINANCE LTD. |

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Branch Office: ICICI Bank Limited Plot No-23, Shal Tower, 3rd Floor,

PICICI Bank New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the

Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited. Date of Demand Name Notice/ Amount of Name of the Description of Property/ Borrower(s)/Loan of Date of Symbolic Possession

in Demand Notice (Rs) Account Number Branch May 14, 2024 Bareilly House Built Over Part of Khasra No. 268 Minjumla, Raju Kumar Situated at Villege Rehpura Chaudhary, Pargana Tehsil & Gangwar /Sheetal 28,56,128/-District Barielly, Uttar Pradesh- 243001 Gangwar/ LBBAR00005431417 Septemebr 04, 2024 The above-mentioned borrowers(s)/guarantors(s) is/are hereby issued a 30 day Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the

provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Sincerely Authorised Signatory For ICICI Bank Ltd.

Chola

Place: Bareilly

Date: September 07, 2024

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Corporate Office: Chola Crest C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

POSSESSION NOTICE Under Rule 8(1)

WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned

has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column [E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made there under The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company Limited for an amount me [D] along with interest and other charges.

Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale.

| SL NO | NAME AND ADDRESS OF APPLICANT & LOAN ACCOUNT NUMBER | DATE OF DEMAND NOTICE | OUTSTANDING AMOUNT | DETAILS OF PROPERTY POSSESSED | DATE OF |
|----------|--|-----------------------------|--|---|------------------------|
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F |
| 1. | (Loan Account Nos. HE01MRU00000051999) 1.AMIT KUMAR (Applicant) 2.SAPNA PARJAPATI (Co_Applicant) 3.PAWAR GARMENTS: - REP BY ITS PROP. AMIT KUMAR (Co_Applicant) RARDHANA, AURANG NAGAR RARDHANA MEERUT, UTTAR PRADESH-250342 | 12 | Rs. 27,84,925/- as on 03-06-2024 | A RESIDENTIAL HOUSE, BEARING NUMBER 197 & 198 IN MUNICIPAL CORPORATION SARDHANA, TOTAL AREA MEASURING 150.22 SQ. MTRS I.E. 179.66 SQ.YDS., SITUATED AT ABADI MOHALLA GHOSIYAN, QASBA SARDHANA, PARGANA AND TEHSIL SARDHANA, DIST. MEERUT, WHICH IS BOUNDED AS: EAST- 38 FT. 6 INCHES/ROAD 24 FEET WIDE WEST- 38 FT. 6 INCHES/ KRIPAO KI MATA HOSPITAL NORTH- 42 FT./HOUSE OF HAFEEZ AHAMAD SOUTH- 42 FT./HOUSE OF MOHD. ZAHID | 05-09-2024 Sumbolic |

CAPITAL INDIA HOME LOANS LIMITED CAPITAL INDIA Registered Address: 701, 7th Floor, Aggarwal Corporate Tower, Plot No. 23, District Centre.

Rajendra Place, New Delhi - 110008. CIN: U65990DL2017PLC322041 SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capital India Home Loans Limited /Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) mentioned herein below. The reserve price, Earnest Money Deposit (EMD) and last date of EMD deposit is also mentioned herein below:

| Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor(s) | Description of the immovable property | Outstanding Amount As On | Reserve price Earnest Money Deposit | Date & Time of Auction |
|--|---|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1. GAGAN SHARMA S/O CHETAN SWAROOP SHARMA 2. GEETA SHARMA W/O GAGAN SHARMA LOAN NO. HLNHFLNCROO12595 | "Freehold Residential Flat No. SF-4, Second Floor (Northern Eastron Fortion Plat) Without Roof Rights, Area Measuring 50 Sq. Yds., Built On Plot No, 194, Area Measuring 108 Sq. Yards Comprised In Khasra No. 750 Mi, Situated At Richhgardi, At Village Bhoanja, Pargana Loni, Tehsil & District-Ghaziabad, Uttar Pradesh. Which Is Bounded as under: East - Property of Sohan Lal, West-Rasta 12 Ft. Wide, North-Rasta 12 Ft. Wide, South-Property of Sohan Lal." | | ₹ 14,00,000/- ₹ 1,40,000/- | 08-10-2024 01.30 PM |

Date & Time of On-Site Inspection of Property: 20th & 21th September 2024 (11.00 A.M. to 06.00 P.M.) For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capital India Home Loans Limited/ Secured

Creditor's website i.e. https://www.bankauctions.com The intending bidder can also contact: Sandeep Shivaji Kamble, Mobile.: 9322572949/8600200088

SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS The above shall be treated as Notice U/r. 9(1) read with 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, to the Obligants to

pay the same within 30 days from the date of publication. Sd/- Authorized Officer Date: 07-09-2024, Place: Ghaziabad, (UP) Capital India Home Loans Limited



Name of the

Equitas Small Finance Bank Ltd (FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)

Registered Office: No.769. Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai - 600002.

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with [Rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the below mentioned Borrowers to repay thetotal outstanding amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice. Since the below mentioned Borrowers having failed to repay the below stated amount within the stipulated time, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and the public in general that, the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002. The Borrowers in particularand the public in general are hereby cautioned not to deal with the schedule mentioned properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited and further interest and other charges thereon." The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets."

| SR NO | Borrower(s) / Guarantor(s) | Description of Secured Asset (Immovable Property) | Notice Date and Amount | Possession taken date |
|--|---|--|---------------------------|--------------------------|
| comprised in Khewat No. 236, Khatoni measuring 5 Kanals 14 Marlas i.e. 13/11 Bhaini Bharon, Tehsil Meham, District Rol Sale deed no. 3385/1 dated 19/03/2019 Rohtak with mutation no. 2731 with the frasta 16" etc., South by: 81'10" Plot of Sciplot of Mandrop etc, West by: 44'0" Khet | | All the pieces and parcels of non-agricultural property being residential property comprised in Khewat No. 236, Khatoni no. 266, Killa no. 132/3(5-14), Kitte 1, measuring 5 Kanals 14 Marlas i.e. 13/114 share in 13 Marlas situated at Mouja Bhaini Bharon, Tehsil Meham, District Rohtak, measuirng area 400 sq. yards vide Sale deed no. 3385/1 dated 19/03/2019 registered at the office of Sub-registrar Rohtak with mutation no. 2731 with the following boundaries:- North by: 81'10" Rasta 16" etc., South by: 81'10" Plot of Sonu & Khet of Vikram etc., East by: 44'0" Plot of Mandrop etc, West by: 44'0" Khet Inder etc. Measurement: 400 sq. Yards, Situated at within the Sub-Registration District of Rohtak | 11-6-2024 & 609563 | 04-09-2024 |
| 2 | 1. All the pieces and parcels of non-agricultural property being residential plot measuring 00 Kanal 02 Marla i.e. 58.60 sq. yards comprised in Khewat no. 285 min//232, Khatoni No. 343 Khasra no. 323/1(0-8) situated at Village Muklan, Teshil and District Hisar (owned by Pawan Devi vide Transfer deed no. 412 dated 12/04/2019 registered at the office of Sub-registrar District Hisar with mutation no. 1907dated 24/04/2019), with the following boundaries:- North by: 15 feet 07 inch Road, South by: 15 Feet 07 Inch Property of Sh. Jagdish, East by: 35 Feet 00 Inch Property of Sh. Dalbir Singh S/o Dhanpat Singh, West by: 35 Feet 00 Inch Street. Measurement: 58.6 sq. Yards. Situated at within the Sub-Registration District of Hisar and Registration District of Hisar 2. All the pieces and parcels of non-agricultural property being residential property measuring 00 Kanal 5.5 Marlas i.e. 166 sq yards comprised in Khewat No. 232, Khasra No. 296 to 297, Kitte 16 situated at Village Muklan, tehsil and District Hisar (owned by Dalbir Singh vide transfer deed dated 4549 dated 24.08.2018 with mutation no. 2884 dated 18.03.2019), with the following boundaries:- North by: 42 feet 09 inch Road, South by: 42 Feet 09 Inch House of Sh. Jagdish, East by: 35 Feet 00 Inch House of Sh. Jagdish Public Street, West by: 35 Feet 00 House of Sh. Dalbir Singh. Measurement: 166 sq. Yards. Situated at within the Sub-Registration District of | | 11-6-2024 & 980492 | 04-09-2024 |

(a) pnb Housing REGD. OFFICE: 9TH FLOOR, ANTRIKSH BHAWAN, 22, K.G. MARG, NEW DELHI-110001, PH: 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnthousing.com nance Limited BRANCH ADDRESS: SCO No. 391, Sector - 29, Urban Estate Near Iffco Chowk Metro Station, Gurgaon-122001

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of

the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/les described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/les and any dealing with the property/les will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

| S. No. | Loan Account No. | Name of the Borrower/Co- Borrower/Guarantor | Demand Notice Date | Amount Outstanding | Date of Possession Taken | Description Of The Property Mortgaged |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| ્રાં. | HOU/GUR/ 1115/253270 B.O: GURGAON | Dinesh Kumar & Seema Singh | 14-11-2023 | Rs. 13,04,325.12 (Rupees Thirteen Lakh Four Thousand Three Hundred Twenty Five And Twelve Paisa Only) | 02-09-2024 (Physical) | Flat No -49, 2nd Floor, Sector-G-8, Pocket-3, Block-A7 Narela, Delhi- 110040 |
| PLACE:- GURGAON, DATE:- 06.09.2024 | | | | AUTHORIZED | OFFICER, P | NB HOUSING FINANCE LTD. |



NOTICE OF 7TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the Seventh (7th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of PRITI

INTERNATIONAL LIMITED will be held on Monday, September 30, 2024 at 10:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), Rules. made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings issued by ICSI ("SS-2"), General Circulars No.14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, and No. 20/2020 dated 05th May, 2020 (including all the amendments and extensions thereto, the latest one being General Circulars No.10/2022 dated 28th December, 2022, and No. 11/2022 dated 28th December, 2022) issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Section VI-Jof the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July11, 2023 ('SEBI Circular'), to transact the business set forth in the Notice of AGM In Compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular the Notice of AGM and the Annual Report has been

dispatched by electronic mode to those members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Friday, August 30, 2024 ("Record Date"), received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company / Depositories Participants or the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company Bigshare Services Private Limited. Notice is also available on the website of the Company (www.pritihome.com) and the website of RTA of the Company

(ivote.bigshareonline.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com). The Company has engaged the services of Bigshare Services Private Limited (BigShare) for the purpose of providing remote e-voting facility prior to AGM to all its members, to cast their vote electronically on all resolutions as set forth in the Notice, pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration)

Rules, 2014 ("Rules"), as amended, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations. The Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice will be transacted only through voting by electronic means. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The members who will be present in the AGM through VC/ OAVM and have not already cast their vote(s) through

emote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.

Voting rights of a Member shall be in proportion to his/her/its shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, September 23, 2024 ("Cut-off Date") The e-voting period commences on Friday, September 27, 2024, (9:00 AM IST) and ends on Sunday, September 29, 2024 (5:00 PM IST). During this period, members of the Company holding Equity Shares, as on the Cut-off Date may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by BigShare for voting after Sunday, September 29, 2024 (5:00 PM IST). Once the vote on a resolution is cast by a member, he or she will not be allowed to change it

The Board has appointed FCA Lucky Nanwani (Membership No. 429997), Chartered Accountant in practice, Partner of SBL and CoLLP, Chartered Accountants (FRN: 0010699C/C400032) Jodhpur, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting prior to AGM and e-voting process during the AGM in a fair and transparent manner. He has communicated his willingness to be appointed and will be available for the said purpose.

The manner of remote e-voting prior to AGM, e-voting at the AGM and manner of attending the AGM by way of VC/OAVM, is explained in the Notes to the Notice of AGM sent to members. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding Equity Shares as on

cut-off date, may refer to the notes to the Notice of AGM and obtain the login ID and password from BigShare by sending a request at ivote@bigshareonline.com. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instruction for

casting vote through remote e-voting prior to AGM and e-voting at the AGM. The Members are requested to register their E-Mail address by following the procedure prescribed in the AGM In case of any queries, members are requested to write an email to ivote@bigshareonline.com or may write to Bigshare

Services Private Limited, Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093, Maharashtra; and for any queries, grievances or issues related to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at ivote bigshareonline.com, under help section or write an email at ivote@bigshareonline.com or contact at 1800 22 54 22.

All communications/queries in this respect should be addressed to Ms. Rashi Shrimal, Company Secretary and Compliance officer of the Company at cs.pritiinternationalltd@gmail.com For Priti International Limited

Date: September 06, 2024 Place: Jodhpur

Rashi Shrimal Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: A60070

TITAN BIOTECH LIMITED

Regd. Office: A-902A, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Rajasthan CIN: L74999RJ1992PLC013387

Ph.: 011-71239900 | Email: cs@titanbiotechltd.com Website: www.titanbiotechltd.com

NOTICE OF 32™ ANNUAL GENERAL MEETING OF TITAN BIOTECH LTD TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND REMOTE E-VOTING FACILITY Notice is hereby given that the 32[™] Annual General Meeting ('AGM'/'Meeting') of Titan Biotech Limited ('the Company') will be

convened through Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circulars dated No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021, No. 2/2022, No. 10/2022 and No. 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circulars") read with SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated Octover 7, 2023 read with earlier circulars in this regards (hereinafter, collectively referred as the "SEBI Circulars" and together with the MCA Circulars referred as the "Circulars"), has allowed companies to conduct their annual general meetings through VC or OAVM, in compliance with the Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations"). The 32nd AGM of the Members of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at 03:00 P.M. through VC facility / OAVM provided by the CDSL to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. In accordance with the Circulars, the Notice convening the AGM along with the Annual Report including Audited Financial

Statements for the financial year ended March 31, 2024 has been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA") i.e., beetalrta@gmail.com or the Depository Participant(s) and holding equity shares of the Company as on August 30, 2024. The Notice and the Annual Report are available on the websites of the Company viz., www.titanbiotechltd.com and has also been forwarded to the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, enabling them to disseminate the same on their

respective websites viz., www.bseindia.com. The Notice shall also be available on the e-Voting website of the agency engaged for

providing e-Voting facility, i.e., CDSL, viz., www.cdslindia.com, The Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-2024 along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports are available on the website of the Company at www.titanbiotechltd.com , www.bseindia.com . Additionally the Notice of AGM and on the website of CDSL www.cdslindia.com. along with the Annual Report 2023-2024 will also be available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed i.e. at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC facility / OAVM ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. The Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-2024 will be sent electronically only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company /RTA. Further, no physical copies of the Notice of AGM and

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below: For registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting:

A. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) with ISR forms by physically/email to cs@titanbiotechltd.com / beetalrta@gmail.com. B. For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID

CLID). Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@titanbiotechltd.com / beetalrta@gmail.com. Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions on or before 20th September,

Send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company, BEETAL Financial & Computer Services Physical. Holding Private Limited at beetalrta@gmail.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. ollowing additional details need to be provided in case of updating Bank Account Details a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) The Bank Account type, c) Bank Account Number allotted by their banks after implementation of Core Banking Solutions d) 9 digit MICR Code Number, and e) 11 digit IFSC Code

f) A scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder.

e-Voting as well as through e-Voting system during the Meeting have been provided along with the Notice.

demat account, as per the process advised by your DP

Members are also informed hereby that:

Place: Delhi

Date: 07/09/2024

Annual Report will be sent to any Member.

 Pursuant to Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-Voting facilities through CDSL to its Members, in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The manner and instructions to cast votes through remote

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your

. The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-Voting only. The Members, whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Monday, September 23, 2024, being the cut-off date, shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently. The remote e-Voting will commence on 26.09.2024 at 10:00 a.m. (IST) (Tuesday) and end on 29.09.2024 at 17:00 p.m. (IST) (Thursday). Thereafter, the module of remote e-Voting shall be disabled after 29.09.2024 at 17:00 p.m . A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. Monday, September 23, 2024, should treat the Notice for information purpose only.

Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via www.evotingindia.com . Members who have exercised their voting rights by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM.

. Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., Monday, September 23, 2024 may obtain the login ld and password for e-Voting, by sending a request to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the RTA at beetalrta@gmail.com. Members who are already registered with CDSL for remote e- Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting. 5. Pursuant to Section 91 of the Act and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended)

read with Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2024 (Tuesday) to 30th September, 2024 (Monday) (both days inclusive), for the purpose of the AGM and for ascertaining the eligibility of Members who shall be entitled to receive the dividend, if declared at the AGM. In case of any queries or issues, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com , under help section All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911. Dividend income will be taxable in the hands of the Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961. Please submit relevant details on or before 22.09.2024 on beetalrta@gmail.com / cs@titanbiotechltd.com, for more details please visit our website www.titanbiotechlitd.com.

New Delhi

For Titan Biotech Ltd

Charanjit Singh (Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Ghaziabad

Date: 06th September, 2024

Company Secretary

financialexp.epapr.in

प्रारूप संख्या आईएनसी-25ए

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तन हेत् समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

थॉमसन प्रेस (इण्डिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-26, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, स्थित है, के मामले में, आवेदक

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सुधित किया जाता है कि यह कम्पनी पूर्वोक्त नियमों के साथ पंडित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के समक्ष एक आवेदन करने हेत् निमित्त है और 23 अगस्त, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में, कस्पनी के रूपांतरण को प्रभावी बनाने में सक्षम करने हेतू, पारित विशेष प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तित होने हेतु

कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन / रिथति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को उनके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख करते हुए, आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर एक प्रति सहित, एक हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है।

> कते एवं आवेदक की ओर से आलोक शुक्ल कम्पनी सचिव एफ-26, प्रथम तल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, भारत

एसपीए कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयरू 25 सी-ब्लॉक कम्युनिटी सेन्टर, जनकपुरी नई दिल्ली-110058 वेबसाइटरू http://www.spacapital.com/Capital Services/ सीआईएनः L65910DL1984PLC018749 टेली. नं.: 011-45675500, ई-मेल आईडी: listing@spacapital.com

40वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) तथा रिमोट ई-वोटिंग की सूचना तदद्वारा सूचित किया जाता है कि: एसपीए कैंपिटल सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों की 40वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को 11

00 पूर्वा. बजे एजीएम की सूचना में निर्धारित किए गए अनुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होगी। कंपनी ने 6 सितंबर 2024 को एजीएम की सूचना वाली वार्षिक रिपोर्ट को उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा क लिया है जिनके नाम भौतिक मोड में धारिता वाले सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए हैं और अनुमत मोड के माध्य से डीमैट मोड में धारिता रखने वालों सदस्यों के नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट

http://www.spacapital.com@CapitalService/ पर प्रदर्शित की गई है और यह रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच एजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों फ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 औ सेबी (सूचीबद्ध दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों क रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को होने वाली कंपनी की एजीएम के उद्देश्य रं

मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 औ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनपाल में, सदस्यों को नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर एजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) के स्थान के अलावा किसी अन स्थान से इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके लिए कंपनी ने ई-मतदा एजेंसी के रूप में सीडीएसएल की सेवायें ली है। इसके अलावा, बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सविधा एजीए में उपलब्ध होगी। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की अर्वा शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शार 5.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में, मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 के कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति रविवार, 29 सितंबर, 2024 को सार 5:00 बजे (आईएसटी)के बाद नहीं दी जाएगी।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य www.evotingindia.co.in पर सहायता अनुभा के अंतर्गत उपलब्ध 'सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' और 'ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका' का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिखें या किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए ईमेलः listing@spacapital.com पर कंपनी से संपर्क करें।

ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की एजीएम के दिन या उसके बाद घोषित किए जाएंगे और कंपनी/आरटीए/एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एसपीए कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के लिए हस्ता / संदीप परवल

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 00025803

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : **07.09.202**4

CAPITAL INDIA

दिनांकः 6 सितम्बर, 2024

स्थानः दिल्ली

कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड सीआईएन नं. : U65990DL2017PLC322041

ंपंजीकृत पता : द्वितीय तल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 अधिग्रहण सूचना

(अचल संपत्ति हेतु) [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **कैपिटल इंडिया होम लोब्स लिमिटेड** (सीआईएन न U65990DL2017PLC322041) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनाँकित 11–06–2024 संख्या HLNHFLNCR0013317 धारक ऋण खातों के संदर्भ में निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं सीमा वार्ष्णेय तथा विष्णु वार्ष्णेय को माँग सूचना में अंकित कुल राशि रु. 22,87,861/— (रुपये बाईस लाख सत्तासी हजार आठ सौ इकसठ मात्र), 09-06-2024 के अनुसार, का राशि पर 10-06-2024 से प्रभावी होकर ऋणानुबंध के नियमों के अंतर्गत प्रोद्भूतकृत / प्रोद्भूत होनेवाले भावी ब्याज एवं शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूँकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 04–09–2024 को साँकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 22,87,861/- (रुपये बाईस लाख सत्तासी हजार आठ सौ इकसठ मात्र), 09-06-2024 के अनुसार, तथा राशि पर उपर्युक्तानुसार भावी ब्याज एवं शुल्कों हेतु कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऋणमुक्त करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय भूखण्ड (पुरानी सं. 147), नवीन सं. 178, क्षेत्राधिमापन 44 वर्ग गज ़ 51 वर्ग गज, कुल क्षेत्राधिमापन 95 वर्ग गज, रिछगर्दी, हापुड़ रोड के समीप, तृतीय तल (छताधिकारों के बिना), परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201001 में स्थित, समस्त अधिकारों (सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं, सुख–सुविधाओं, विकासाधिकारों, इत्यादि के उपयोग एवं अधिभोग के अधिकारों सहित किंतू इन्हीं तक सीमित नहीं) (लागू अनुसार) के साथ, तथा उससे संबद्ध समस्त फर्नीचरों, फिक्सचरों, फिटिंगों तथा वस्तुओं के अधिकारों के साथ है, जो निम्नानुसार परिसीमित है :– **पूर्व-** भूखण्ड का शेष भाग, **पश्चिम-** सुधा शर्मा एवं अंजू शर्मा का भूखण्ड, **उत्तर**- धर्मवती का भूखण्ड, **दक्षिण**- रास्ता ८ फुट चौड़ा।

दिनॉंक : 04-09-2024 स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी कैपिटल इंडिया होम लोन्स लिमिटेड



जिंदल सॉ लिमिटेड पंजी. कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403 सीआईएनः एल27104यूपी1984पीएलसी023979

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) विषय : कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निघि (आईईपीएफ)

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित 07 सितम्बर, 2016 से प्रभावी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 ("उक्त नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में जारी की जा रही है, जो उन सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) को अंतरित करने के संबंध में है, जिनके लामांश का भुगतान लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से नहीं किया गया है अथवा जिनके लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, कम्पनी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु सूचना प्रेषित कर चुकी है, जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकारण को अंतरित किए जाने के भागी हैं।

संबंधित शेयधारक, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी हैं, ध्यान दे कि कम्पनी शेयरों का अंतरण आईईपीएफ प्राधिकारण को करने के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर पुष्टि पत्र जारी करेगी तथा पुष्टि पत्र जारी किए जाने पर उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द मान्य होंगे। इसी प्रकार से डीमैट रूप में धारित शेयर भी शेयरधारकों की ओर से कम्पनी अधिकारी द्वारा डीमैट स्लिप पर हस्ताक्षर करने द्वारा आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए जाएंगे। शेयरधारक इसके अतिरिक्त नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित किए गए अदावित शेयर तथा उन पर उदभूत सभी लाभ, नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा सकते हैं।

अतएव, आपको सूचना दी जाती है कि 2016—2017 से अपना अदत्त / अदावित लाभांश तत्काल मांग लें अथवा कम्पनी को लिखें। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारक से 23 अक्टूबर, 2024 तक अथवा कम्पनी द्वारा आगे बढ़ाई गई तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, नियमों का अनुपालन करने के लिए, शेयर नियत तिथि तक आईईपीएफ प्राधिकारण में अंतरित कर दिए

उपरोक्त नियमों की प्रति संबंधित शेयरधारकों तथा आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों के विवरण सहित कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट (<u>www.jindalsaw.com</u>) पर अपलोड की जा चुकी है। आप इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर जा

यदि शेयरधारकों को विषयगत मामले तथा नियमों के बारे में कोई संदेह है, तो वे कम्पनी सेक्रेटरी, जिंदल सॉ लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली—110066, फोन 011—011—61462259, 011—61462237, ई—मेलः investors@jindalsaw.com से सम्पर्क कर

वास्ते जिंदल सॉ लिमिटेड सुनिल के. जैन स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव तिथि : 4 सितम्बर, 2024 एफसीएस : 3056

रॉकिंगडील्स सर्कूलर इकोनॉमी लिमिटेड

सीआईएनः L29305DL2002PLC116354, **पंजीकृत कार्यालयः** शॉप केएच नं. 424 बेसमेंट घिटोरनी, गदाईपुर, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएल- 110030 फोनः +91-9212200000 ईमेलः Compliance@rockingdeals.in, वेबसाइटः www.rdcel.com

22वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 22वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंस (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजुअल साधन (''ओएवीएम'') के माध्यम से क्रमशः 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 10/2022 और 11/2022 के साथ पठित, उसके बाद सितंबर 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 25, 2023 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र"के रूप में संदर्भित) और 13 मई 2022 के 'सेबी' परिपत्र संख्या सेबी / एचओं / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62, 05 जनवरी 2023 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 और उसके बाद 07 अक्टूबर 2023 के सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सभी अन्य लागू कानूनों और परिपत्रों के अनुसार, नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों को करने के लिए। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज शामिल हैं, केवल उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.rdcel.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम ("ई-वोटिंग") के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान कर रही है । रिमोट ई—वोटिंग/ई—वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है, जिसे शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार शीघ्र ही भेजा जाएगा। शेयरधारकों को यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें कंपनी की 22वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30

सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम की सूचना आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल–आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का

डीमैट शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास होल्डिंग्स पंजीकृत कराएं जिनके पास वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।

भौतिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे फोलियो संख्या का विवरण तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित होल्डिंग प्रित संलग्न कर कंपनी को compliance@rockingdeals.in पर अथवा आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को prasadm@bigshareonline.com पर सूचित करें।

> रॉकिंगडील्स सर्कूलर इकोनॉमी लिमिटेड के लिए हस्ता / –

दिनांकः 06/09/2024 दीपिका दीक्षित स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड

(CIN: L65100DL1984PLC018748)

पंजी. कार्या.: एस-524, 1 ला तल, विकास मार्ग,

शकरपुर, दिल्ली-110092

सुचना

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड के सदस्यों की 40वीं (चालिसवीं) वार्षिक आम

सभा (एजीएम) सोमवार 30 सितम्बर 2024 को 9.30 बजे पूर्वा. में "एस-524, 1 ला

तल विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092" में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा

के आयोजन की सूचना, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ

शुक्रवार, 30 सितम्बर 2024 को पंजीकाओं में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी जा रही

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के

रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां सोमवार 23 सितम्बर 2024 से सोमवार

30 सितम्बर 2024 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की धारा 108 तथा

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर

सचिवालयी मानक के मानक-2 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की

सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक

माध्यमों ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने

● रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024

रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः रिववार, 29 सितम्बर, 2024

मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार,

एजीएम में, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों को, मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा

जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित हो

सकते हैं, लेकिन वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।

● एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.abhinavleasefinltd.in एवं

यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप

www.evotingindia.com के सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध तीव्रतापूर्वक

पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा

क्रेनेक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 9, डीडीए मार्केट, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

कॉर्पोरेट कार्यालयः 57/1, औद्योगिक क्षेत्र, साइट-IV, साहिबाबाद (यूपी)-201010

ईमेलः investors@cranexltd.com, वेबसाइटः http://www.cranexltd.com

बीएसई स्क्रिप्ट कोडः 522001 ISIN: INE608B01010

49वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि क्रेनेक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 49वीं वार्षिक आम बैटक

('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे (आईएसटी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य

दुश्य—श्रव्य माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से बैठक की सूचना में निर्धारित कार्यवाही को निष्पादन

के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों और भारतीय

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ

पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल,

2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, जिनमें से सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या

09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 को जारी किया गया तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या

सेबी / एचओ / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी,2023 और परिपत्र संख्या

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एँजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत

कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 108 के अनुसार यह भी सूचना दी जाती

है कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कारोबार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए किया जा सकता

है और कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए

सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा देने में प्रसन्न है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल

वर्ष 2023–24 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस 6 सितंबर, 2024 को कंपनी के उन सदस्यों को

भेज दिया गया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त

दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.cranexltd.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की

वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का

रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से

डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते

पंजीकत नहीं किए हैं. उनके लिए एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग और वोटिंग का तरीका एजीएम की सचना

में दिया गया है और यह कंपनी की वेबसाइट www.cranexltd.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट

यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है. और एनएसडीएल (रिमोट

ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानी evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने डलेक्टॉनिक माध्यम से या वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने

यदि कोई व्यक्ति वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने के बाद लेकिन ई–वोटिंग की कट–ऑफ तिथि यानी सोमवार,

23 सितंबर 2024 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है तो वह यजर आईडी और पासवर्ड के लिए

अनुरोध करते हुए ई–मेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल को लिख सकता है। यदि सदस्य ई–वोटिंग

के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने

के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही

कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम नोटिस में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम

जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे पंजीकृत करें, ताकि नीचे

उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त

हो सकें। ईमेल आईडी के सफल पंजीकरण पर, ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड सदस्य की पंजीकृ

यदि सदस्यों के पास ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न है. तो सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान

करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज

श्री परवीन रस्तोगी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को रिमोट ई—वोटिंग और निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया

ई—वोटिंग की शुरुआतः |शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे (आईएसटी) से

ई-वोटिंग की समाप्ति : शाम 5 बजे तक (आईएसटी) रविवार, 29 सितंबर, 2024 तक

गारटाज डिपाजिटरा लिमिटेड(एनएसडीएल)की सेवाएं ली हैं। संबंधित परिपत्रों के अनपालन में. वित्तीर

एवं इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

रिमोट ई-वोटिंग स्विधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:-

के लिए सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को "कट—ऑफ तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

सकते हैं या 022–4886 7000 और 022–2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

की देखरेख / संचालन के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है।

ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश

में ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

त ईमेल आईडी पर साझा किया जाएगा।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 07 09 2024

अभिनव लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड

ममता अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

है, में वर्णित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।

सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(5.00 बजे सायं)

दिनांकः 05.09.2024

स्थानः दिल्ली

CRANEX

उपलब्ध हैं।

स्वाम सॉफ्टवेअर लिमिटेड

(CIN:L65100DL1992PLC047327) पंजी. कार्या.: 224, जी /एफ स्वयम सेवा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., झिलमिल, दिल्ली-110032

स्वाम सॉफ्टवेअर लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं (बत्तीसवीं) वार्षिक आम सभ (एजीएम) सोमवार 30 सितम्बर 2024 को 9.00 बजे पूर्वा. में "एस-524, विकास मार्ग शकरपुर, दिल्ली-110092" में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को पंजीकाओं में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी जा रही है, में वर्णित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रिजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां सोमवार 23 सितम्बर 2024 से सोमवार 30 सितम्बर 2024 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा प |सचिवालयी मानक के मानक−2 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 (9.00 बजे पर्वा.)
- रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः रिववार, 29 सितम्बर, 2024 (5.00 बजे सायं)
- 🕒 मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार
- 🕒 एजीएम में, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों को, मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं. वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे
- 🕒 एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.svamsoftwareltd.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट www.evoting¦india.com पर भी उपलब्ध है।
- 🕒 यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप www.evotingindia.com के सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

स्वाम सॉफ्टवेअर लिमिटेड हस्ता.

मनीशा अग्रवाल दिनांक: 05.09.2024 स्थानः दिल्ली प्रबंध निदेशक

सरणामल इन्वस्टमन्ट लिमटेड (CIN: L65100DL1981PLC012431)

पंजी: कार्या.: 508, 5वां तल, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, दिल्ली-110001

सचना

सरणीमल इंवेस्टमेंट लिमिटेड के सदस्यों की 43 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम सोमवार 30 सितम्बर 2024 को 10.30 बजे पूर्वा. में "एस-524, विकास मार्ग, शकरपुर दिल्ली-110092" में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को पंजीकाओं में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी जा रही है, में वर्णित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां सोमवार 23 सितम्बर 2024 से सोमवार 30 सितम्बर 2024 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगी। अधिनियम की धारा 108 तथ कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर सिचवालयी मानक के मानक 2 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह कंपनी एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

- 🗨 रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 27 सितम्बर 2024 (9.00 बजे पूर्वा.)
- 🕒 रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः रविवार, 29 सितम्बर, 2024 (5.00 बजे सायं)
- 🕒 मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथिः शुक्रवार
- एजीएम में, सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों को, मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा
- भी उपलब्ध कराई जाएगी। ● जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित ह
- सकते हैं, लेकिन वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे कम्पनी सुचना https://www.jollyplasticindustriesltd.in/ तथा सीडीएसएल की वेबसाइट
- www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप www.evotingindia.com के सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध तीव्रतापूर्वक

पुछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं।

कृते सरणीमल इंवेस्टमेंट लिमिटेड

दिनांक: 05.09.2024 स्थान: दिल्ली

नितिन अग्रवाल प्रबंध निदेशक

GCCDLUCK गुडलक इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंगा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 निगमित कार्यालय : गुड लक हाउस, ।⊢एफ, 166-167, नेहरू नगर, अंबेडकर मार्ग, गाजियाबाद-201001 सीआईएन: L74899DL1986PLC050910, दूरभाष: 91-120-4196600 ई—मेल : goodluck@goodluckindia.com, वेबसाइट : www.goodluckindia.com

> 38वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

तदद्वारा सुचना दी जाती है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम् शनिवार, 28 सितंबर 2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल साध 'ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बना . एए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर, 2023 को जारी सामान्य परिपत्र 09/2023 के साथ 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर 2021, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्रों के साथ पढ़ें और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023 और 6 अक्टूबर, 2023 के परिपत्रों के साथ पढ़ें, के अनुस साधारण और विशेष व्यवसाय, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित है, के अनुपालन में संपन्न की जायेगी बैठक की सूचना, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई-वोटिंग विवर उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं, जिनकी ई–मेल आईर्ड कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को नोटिस का ईमेल भेजने की समाप्ति तिरि 05 सितंबर, 2024 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

पदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकत नहीं की है. तो कपया वित्त वर्ष 2023–2 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेत आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक धारिताः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 38वीं एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के लिए अपर्न ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और / या फॉर्म आईएसआर-1 और सेबी द्वारा निर्धारित अन वंगिक फॉर्म में अन्य विवरण कंपनी के रिजस्टार और कंपनी के शेयर टांसफर एजेंट एमएएस सर्विसे लिमिटेड टी–34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–।।, नई दिल्ली 100020, ईमेल आईडी investor@masserv.com, वेबसाइट : www.masserv.com को प्रस्तुत करें।

इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक फॉर्म आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com प डाउनलोड टैब के तहत उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें और अपना विवरण समय

अमौतिक धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रियां के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपन

बैंक विवरण भी अपडेट करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेर्ब (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी वे सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक अंतिम लाभांश और 38वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य र शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से रविवार, 22 सितंबर 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014

यथा संशोधित और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 4⁄ के अनुपालन में, कंपनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting@nsdl.co.in के माध्यम से सम् व्यवसाय करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है। रिमोट ई-वोटिंग अविध मंगलवार, 24 सितंब 2024 (सुबह 09:00 बजे) से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। उसके बाद वोटिंग के लि एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह www.evoting@nsdl.co.in को या आरटीए, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड के investor@masserv.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है हालाँकि, यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपन वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। एक बार सदस्य द्वार किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है. वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं. लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री एन के रस्तोगी को ई—वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए पत्र में शामिल है। ई–वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत अधोहस्ताक्षरकर्ता के cs@goodluckindia.com (फोन 0120–4196600) पर या आरटीए को investor@masserv.com (फोन 011—26387281—83) पर भेजे जा सकते हैं।

कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड (अभिषेक अग्रवाल)

त्रिदेव इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड (CIN: L65100DL1988PLC033812) पंजी. कार्या.: एस-524, एफ ∕एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092

त्रिदेव इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. में एस-524, एफ/एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सुचना जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट के साथ शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को पंजी में वर्णित सदस्यों के नाम में भेजी गई है, में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। अधिनियम की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा साधारण सभा पर सचिवालयी मानक के मानक 2 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है।

- रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समयः शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 (१.०० बजे पूर्वा.)
- रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समयः रविवार, 29 सितम्बर, 2024 (5.00 बजे अप.)
- मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट ऑफ तिथिः शुक्रवार, 20 सितम्बर,
- एजीएम में सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिये मत पत्र द्वारा मतदान की
- सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करते हैं, वे भी सभा में उपस्थित हो सकते हैं. लेकिन सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।
- एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट https://www.jollyplasticindustriesltd.in एवं सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
- यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा अथवा प्रश्न हो तो आप सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं अथवा

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। त्रिदेव इन्फ्राइस्टेट्स लिमिटेड के लिये

> सुनील कुमार अगरवाल प्रबंध निदेशक

स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

CIN: U25208HR1983PLC015135 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 918, सेक्टर 68, आईएमटी, फरीदाबाद-121004

तिथि: 05.09.2024

स्थान: दिल्ली

वेबसाइटः www.studds.com, ई-मेलः secretarial@studds.com फोन नंबर: 0129-4296500

42वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग तथा अन्तिम लाभांश की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि समय-समय पर कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सभी लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में 42वीं एजीएम बुलाने की सुचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जानी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम नोटिस के नोट्स में अच्छी तरह से बताई गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस गुरुवार, 5 सितंबर, 2024 को केवल उन सदस्यों और अन्य हकदार व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है, जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.studds.com/investorrelations और आरटीए की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं। परिपत्रों के साथ पठित संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की स्विधा प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') द्वारा प्रदान की जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए 4.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (5.00 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य का 80%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि 23 सितंबर, 2024 है। सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य है और कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर ('टीडीएस') कटौती आवश्यक है। टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विधिवत निष्पादित दस्तावेज ईमेल के माध्यम से आरटीए को delhi@linkintime.co.in पर या कंपनी को secretarial@studds.com पर मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले भेजें।

वार्षिक रिपोर्ट/एजीएम नोटिस और लाभांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए ई–मेल पते और बैंक खाता विवरण ('केवाईसी') पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीकाः ए) यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), केवाईसी विवरण; पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रति), बैंक विवरण (यदि अद्यतन नहीं है) ईमेल द्वारा आरटीए को delhi@linkintime.co.in पर या कंपनी को secretarial@studds.com पर प्रदान करें: बी) यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं, तो कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपने केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतन करें।

सदस्यों को यह भी सुचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी; (ख) रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर आरटीए द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दे तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी; (ग) ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तारीख सोमवार, 23 सितंबर, 2024 तय की गई है। वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तारीख को कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य पर की जाएगी; (घ) कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह आरटीए को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह | https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध "Forgot User |Details/Password" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है| या 022–49186000 या 011–49411000 पर कॉल करके आरटीए से संपर्क कर सकता |है, ई-मेलः delhi@linkintime.co.in (ङ) ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान| भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है, वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें; (च) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना ई-वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ई-वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य |https://instavote.linkintime.co.in के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध| Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-Voting user manual for Shareholders देख सकते हैं, या श्री स्वपन नस्कर, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 से निर्धारित ईमेल पते delhi@linkintime.co.in

पर या टेलीफोन नंबर 011 - 49411000 पर संपर्क करें। मितदान परिणाम (रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में ई-वोटिंग) निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.studds.com और लिंक इनटाइम की वेबसाइट https://linkintime.co.in पर उपलब्ध होंगे और कंपनी के पंजीकृत

कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड के लिए

आशा मित्तल

(कंपनी सचिव)

स्थानः फरीदाबाद

दिनांक: 5 सितम्बर, 2024

दिनाँक : 06 सितंबर, 2024 www.readwhere.com

हस्ता /-

हीना शर्मा

स्थान : गाजियाबाद

क्रेनेक्स लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव , सदस्यता संख्या- ए 65512